

आवश्यकता है - शिक्षकों / प्रशिक्षकों की (पूर्णतः अस्थायी / संविदा आधारित)

पूर्णतः अस्थायी/ पैनल हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

(अ) अस्थायी पद: पी. जी. टी. (राजनीति शास्त्र, **अंग्रेजी**, रसायन विज्ञान), टी.जी.टी. (हिंदी, संस्कृत), प्राथमिक शिक्षक, कम्प्यूटर अनुदेशक, योग अनुदेशक, खेल प्रशिक्षक (फुटबाल, जूडो/ताइक्वांडो), नृत्य-संगीत प्रशिक्षक, डाक्टर, स्टाफ नर्स, परामर्शक (काउंसलर)|

(ब) केवल पैनल हेतु : पी. जी. टी. (भौतिक विज्ञान, **जीव विज्ञान**, **गणित**, **भूगोल**, **हिंदी**, **कम्प्यूटर विज्ञान**, **इतिहास**, **अर्थशास्त्र**, कामर्स), टी.जी.टी. (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान).

इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट www.kv2chakeri.org से डाउनलोड कर सकते हैं या दिनांक 07-02-2019 से 13-02-2019 तक (प्रातः 10:00 से 11:00 बजे के बीच) विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह भरे हुए **मूल आवेदन पत्र** प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियों / संलग्नकों सहित दिनांक 13-02-2019 तक डाक द्वारा या विद्यालय में प्रातः 10:00 से 11:00 बजे के मध्य स्वीकार किए जाएंगे।

किसी भी पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में साक्षात्कार हेतु उनकी छँटनी के लिए दिनांक 16-02-2019 को सम्बंधित विषय में 90 मिनट की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी; जिसके लिए **निर्धारित पद एवं उनकी परीक्षा का समय आदि 15-02-2019 को अपराह्न 04:00 बजे के बाद विद्यालय बेबसाइट तथा विद्यालय सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा** | दिनांक 22,23,25 फरवरी 2019 को होने वाले साक्षात्कार हेतु सीमित पात्र अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा; जिनकी सूची, साक्षात्कार की तिथि एवं उसके समय सहित विद्यालय के सूचना पट तथा विद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 18-02-2019 को (अपराह्न 04:00 बजे) प्रदर्शित कर दी जाएगी।

इस संबंध में विस्तृत विवरण, पात्रता आदि हेतु विद्यालय की वेबसाइट (www.kv2chakeri.org) अथवा विद्यालय सूचना पट देखें।

सभी पद पूर्णतः अस्थायी हैं, जिनके साक्षात्कार हेतु कोई भी टी.ए. / डी.ए. एवं अन्य लाभ देय नहीं होगा।

(बि. दयाल)
प्राचार्य